



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11, 1984/साघ 22, 1905

No 54]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11, 1984/MAGHA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रहित संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त संचालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1984

का०आ० 86 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर 11 फरवरी, 1984 में चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के भिण्ड और मरना जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[नं० एफ० 1-24/83-आर०आर०बी०(I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th February, 1984

S.O. 86(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, on being requested so to do by Central Bank of India establishes, with effect from the 11-2-1984 a Regional Rural Bank in the State of Madhya Pradesh under the name of Chambal Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the Districts of Bhind and Morena in the State of Madhya Pradesh.

[No. F. 1-24/83-RRB(I)]

का०आ० 87(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करके, मुरैना को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एफ० 1-24/83-आर० आर० बी० (II)]

S.O. 87(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India by which Chambal Kshetriya Gramin Bank has been sponsored specifies Morena as the place where Chambal Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-24/83-RRB(II)]

का० आ० 88(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ० 1-24/83-आर० आर० बी० (III)]

S.O. 88(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Chambal Kshetriya Gramin Bank, Morena being an institution established under sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-24/83-RRB(III)]

का० आ० 89(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री डी० बी० शितोले को चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 11-2-1984 से प्रारम्भ होकर 28-2-1987 को समाप्त

होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री डी० बी० शितोले अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-24/83-आ० आर० बी० (IV)]

देवेन्द्र राज मेहता, मयुक्त सचिव

S.O. 89(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri D. B. Shitole as Chairman of the Chambal Kshetriya Gramin Bank, Morena and specifies the period commencing on the 11-2-1984 and ending with the 28-2-1987 as the period for which the said Shri Shitole shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-24/83-RRB(IV)]

D. R. MEHTA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग

अधिसूचना

बम्बई, 11 फरवरी, 1984

का० आ० 90(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना (मध्य प्रदेश)”।

[आर०पी०सी०डी० संख्या 265/आई०एन०सी०एल०/311/83]

ति०ना० अनन्तराम अय्यर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Department)

NOTIFICATION

Bombay, the 11th February, 1984

S.O. 90(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Chambal Kshetriya Gramin Bank, Morena (Madhya Pradesh).”

[Ref. RPCD. No. 265/INCL/311/83]

T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director